



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2008/फाल्गुन 13, 1929

No. 98]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2008/PHALGUNA 13, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2008

सं. 30/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि 161 (अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2707 99 00 या 2907 11 10 के अंतर्गत आने वाले, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया आर पी तथा ताइवान (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है) में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यात किये गए, फेनॉल (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध माल भी कहा गया है) के आयात के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 29 अगस्त, 2007 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/5/2006-डीजीएडी, तारीख 29 अगस्त, 2007 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि :—

- (क) भारत को संबद्ध देश से संबद्ध माल का निर्यात उसके सामान्य मूल्यों से कम कीमत पर किया गया था;
- (ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी;
- (ग) संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा क्षति हुई थी ;

अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देश में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यात किए गए संबद्ध माल के आयातों पर, अनंतिम प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना सं. 105/2007-सीमाशुल्क, 19 सितम्बर, 2007 (GA/2008

2007 द्वारा जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 19 सितम्बर, 2007 में सा.का.नि. 605(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2007 में प्रकाशित हुई थी, संबद्ध माल पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित किया था ;

और अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 14/5/2006-डीजीएडी, तारीख 7 जनवरी, 2008 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1, तारीख 7 जनवरी, 2008 में प्रकाशित हुई, द्वारा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

- (क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु ने भारतीय बाजार में प्रवेश निर्यातक देशों के घरेलू बाजारों में उसकी सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में उत्पाद का पाटन हुआ है;
- (ख) संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन अत्यधिक और न्यूनतम सीमा से अधिक है ;
- (ग) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; और
- (घ) घरेलू उद्योग को यह क्षति संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा मात्रात्मक तथा कीमत प्रभाव दोनों रूप में हुई है ।

और, अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देश में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यात किये गए, संबद्ध माल के सभी आयातों पर, निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क) की उप-धारा (1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित

प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित देश में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, संबद्ध मालों पर जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद सं. के अंतर्गत आते हैं जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, जब

उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देश से, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि के समतुल्य, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मुद्रा और उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, के दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

### सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद का उपशीर्ष	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	270799 00 या 29071110	फेनॉल	यूएसए	कोई	कोई	कोई	181	मी.टन	अमरीकी डालर
2.	270799 00 या 29071110	फेनॉल	कोरिया गणराज्य एवं ताईवान के अलावा कोई अन्य	यूएसए	कोई	कोई	181	मी.टन	अमरीकी डालर
3.	270799 00 या 29071110	फेनॉल	ताईवान	कोई	कोई	कोई	137	मी.टन	अमरीकी डालर
4.	270799 00 या 29071110	फेनॉल	यूएसए एवं कोरिया गणराज्य के अलावा कोई अन्य	ताईवान	कोई	कोई	137	मी.टन	अमरीकी डालर
5.	270799 00 या 29071110	फेनॉल	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	कोई	196	मी.टन	अमरीकी डालर
6.	270799 00 या 29071110	फेनॉल	ताईवान एवं यूएसए के अलावा कोई अन्य	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	196	मी.टन	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क 19 सितम्बर, 2007 से, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

**स्पष्टीकरण :—** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू "विनियम दर" वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनियम दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/137/2007-टीआरयू]  
सोनल बजाज, अवर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2008  
No. 30/2008-Customs

**G. S. R. 161(E).**— Whereas in the matter of import of phenol (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2707 99 00 or 2907 11 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the United States of America, Korea RP and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* notification No. 14/S/2006-DGAD dated the 29th August, 2007, published in the Gazette of

India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th August, 2007, had come to the conclusion that—

- (a) the subject goods had been exported to India from the subject countries below its normal value;
- (b) the domestic industry had suffered material injury;
- (c) the injury had been caused by the dumped imports from subject countries;

and had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 105/2007-Customs, dated the 19th September, 2007, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 605(E), dated the 19th September, 2007;

And whereas, the designated authority, in its final findings *vide* notification No. 14/5/2006-DGAD, dated the 7th January, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th January, 2008, has come to the conclusion that—

(a) the subject goods have entered the Indian market from the subject countries at prices less than their values in the domestic markets of the exporting countries, resulting in dumping of the product in the Indian market;

(b) the dumping margins of the subject goods imported from the subject countries are substantial and above de minimis;

(c) the domestic industry has suffered material injury;

(d) the injury has been caused to the domestic industry, both in terms of volume and price effect by the dumped imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subjects countries;

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the goods,

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit of measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	27079900 or 29071110	Phenol	United States of America	Any	Any	Any	181	MT	USD
2.	27079900 or 29071110	Phenol	Any country other than Korea RP and Taiwan	United States of America	Any	Any	181	MT	USD
3.	27079900 or 29071110	Phenol	Taiwan	Any	Any	Any	137	MT	USD
4.	27079900 or 29071110	Phenol	Any country other than United States of America and Korea RP	Taiwan	Any	Any	137	MT	USD
5.	27079900 or 29071110	Phenol	Korea RP	Any	Any	Any	196	MT	USD
6.	27079900 or 29071110	Phenol	Any country other than Taiwan and United States of America	Any	Any	Any	196	MT	USD

the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the country specified in the corresponding entry in column (5) and produced by the producer specified in the corresponding entry in column (6) and exported by the exporter specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied with effect from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 19th September, 2007, and shall be payable in Indian currency.

**Explanation :—**For the purposes of this notification, "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act 1962, and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Customs Act.

[F.No. 354/137/2007-TRU]  
SONAL BAJAJ, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2008

सं. 31/2008-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 162 (अ).—** केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपादन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 तथा 20 के साथ पाठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 105/2007- सीमाशुल्क, 19 सितम्बर, 2007 जो कि भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 605 (अ), तारीख 19 सितम्बर, 2007 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, को विरुद्धित करती है।

[फा.सं. 354/137/2007-टी आर यू]

सोनल बजाज, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2008

No. 31/2008-Customs

**G. S. R. 162 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 105/2007-Customs, dated the 19th September, 2007, published in the Gazette of India *vide* number G. S. R. 605 (E), dated the 19th September, 2007.

[F.No. 354/137/2007-TRU]  
SONAL BAJAJ, Under Secy.